

# बालभवन बालिका विद्यापीठ लखीसराय

कक्षा - पंचम्

दिनांक -04-08-2020

विषय -हिन्दी

विषय शिक्षक -पंकज कुमार

एन, सी, ई, आरटी, पर आधारित

सुप्रभात बच्चों आज पर्यायवाची शब्द के बारे में अध्ययन करेंगे।

## पर्यायवाची शब्द की परिभाषा

'पर्याय' का अर्थ है- 'समान' तथा 'वाची' का अर्थ है- 'बोले जाने वाले' अर्थात् जिन शब्दों का अर्थ एक जैसा होता है, उन्हें 'पर्यायवाची शब्द' कहते हैं।

**इसे हम ऐसे भी कह सकते हैं-** जिन शब्दों के अर्थ में समानता हो, उन्हें 'पर्यायवाची शब्द' कहते हैं।

**दूसरे अर्थ में-** समान अर्थवाले शब्दों को 'पर्यायवाची शब्द' या समानार्थक भी कहते हैं।

जैसे- सूर्य, दिनकर, दिवाकर, रवि, भास्कर, भानु, दिनेश- इन सभी शब्दों का अर्थ है 'सूरज' ।

इस प्रकार ये सभी शब्द 'सूरज' के पर्यायवाची शब्द कहलायेंगे।

पर्यायवाची शब्द को 'प्रतिशब्द' भी कहते हैं। अर्थ की दृष्टि से शब्दों के अनेक रूप हैं; जैसे- पर्यायवाची शब्द, युग्म शब्द, एकार्थक शब्द, विपरीतार्थक शब्द, समोच्चरितप्राय शब्द इत्यादि।

अंधकार - तम, तिमिर, अँधेरा, तमस, अंधियारा.

आम - रसाल, आम्र, सौरभ, अमृतफल.

आंसू - नेत्रजल, नयनजल, चक्षुजल, अश्रु.

आत्मा - जीव, चैतन्य, चेतनतत्त्व, अंतःकरण.

बादल - मेघ, घन, जलधर, जलद, वारिद, पयोधर.

बालू - रेत, बालुका, सैकत.

बन्दर - वानर, कपि, हरि.

बिजली - घनप्रिया, इन्द्रवज्र, चंचला.

बगीचा - बाग, वाटिका, उपवन, उद्यान, फुलवारी, बगिया.

बाण - सर, तीर, सायक, विशिख.

बाल - कच, केश, चिकुर, चूल.

ब्रह्मा - विधाता, स्वयंभू, प्रजापति, पितामह.

बलदेव - बलराम, बलभद्र, हलायुध, रोहिणेय.

बहुत - अनेक, अतीव, अति, बहुल, प्रचुर.

ब्राह्मण - द्विज, भूदेव, विप्र, महीदेव, भूमिसुर, भूमिदेव.

भय - भीति, डर, विभीषिका.

भाई - तात, अनुज, अग्रज, भ्राता, भ्रातृ.

भूषण - जेवर, गहना, आभूषण, अलंकार.

भौरा - मधुप, मधुकर, द्विरेप, अलि, भ्रमर.

मनुष्य - आदमी, नर, मानव, मानुष, मनुज.

मोर - कलापी, नीलकंठ, नर्तकप्रिय.

मधु - शहद, रसा, शहद.

मृग - हिरण, सारंग, कृष्णसार.

मछली - मीन, मत्स्य, जलजीवन, शफरी, मकर.

माता - जननी, माँ, अंबा, जनयत्री, अम्मा.

मित्र - सखा, सहचर, साथी, दोस्त.

### गृहकार्य

दश पर्यायवाची लिखकर याद करें जो इसमें न दिया हो एवं उसे भेजने का प्रयास करें

|